



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11]  
No. 11]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 1979/पौष 15, 1900  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 1979/PAUSA 15, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1979

सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 15 (अ):— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय-56 के अन्तर्गत सम्मिलित बिस्कोस स्टेपल फाइबर, बिस्कोस टो और पोलिनोमिक स्टेपल फाइबर को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्घरणाय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 6/79/का० सं० 255/206/78—सी० शु० I]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th January, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 15(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of

1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts viscose staple fibre, viscose tow and polynosic staple fibre, falling within Chapter 56 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st December, 1979.

[No. 6/79/F. No. 355/206/78-Cus.-I]

सा० का० नि० 16 (अ):—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1978 (1978 का 19) की धारा 35 की उपधारा (4) के तहत पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 96—सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) क्रम सं० 126, 162 और 178 का लोप किया जाएगा ;

(ख) क्रम सं० 220 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“221 सं० 6—सीमा-शुल्क, तारीख 5 जनवरी, 1979”।

[सं० 7/79/का० सं० 355/206/78—सी० शु०-I]

**G.S.R. 16(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 35 of the Finance Act, 1978 (19 of 1978), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 96-Customs, dated the 12th May, 1978, namely :—

- (a) serial numbers 126, 162 and 173 shall be omitted;
- (a) serial No. 126, 162 and 173 shall be omitted ;
- (b) after serial No. 220 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"221 No. 6-Customs, dated the 5th January, 1979".

[No. 7/79/F. No. 355/206/78-Cus.-I]

सा० का० नि० 17 (अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 56 के अन्तर्गत सम्मिलित विस्कोस स्टैपल फाइबर और विस्कोस टो को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय अनिश्चित शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो प्रति किलोग्राम एक रुपया अर्थात् पैसे से अधिक है।

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1979 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रभावी होगी।

[सं० 8/79/का० सं० 355/206/78-सीमा शुल्क-I]

जे० डोमिनिक, अवर सचिव

**G.S.R. 17(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts viscose staple fibre and viscose tow, falling within Chapter 56 of the

First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the additional duty leviable thereon under section 3 of the above-mentioned Act as is in excess of one rupee thirty two paise per kilogram.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st December, 1979.

[No. 8/79/F. No. 355/206/78-Cus. I]

J. DOMONIK, Under Secy.

#### केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 18(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और सीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 28/75 केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में उपावद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 में, स्तम्भ (2) "(i) सेल्यूलोसी उद्भवका" प्रविष्टि के सामने स्तम्भ (3) में "1.50" अंकों के स्थान पर "2.65" अंक रखे जाएंगे।

[सं० 10/79/का० सं० 355/206/78-सीमा शुल्क-I]

टी० आर० रस्तोगी, अवर सचिव

#### CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 18(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 28/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975, namely :—

In the Table annexed to the said notification, in S. No. 1, for the figures "1.50" in column (3) against the entry "(i) of cellulosic origin" in column (2), the figures "2.65" shall be substituted.

[No. 10/79/F. No. 355/206/78-Cus. I]

T. R. RUSTOGI, Under Secy.